

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1900

गुरुवार, 16 मार्च, 2023/25 फाल्गुन, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

- कर्नाटक में धरोहर स्थल
1900. श्री जी.सी. चन्द्रशेखरः
क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य में धरोहर पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर किए गए उपायों के ब्यौरे क्या हैं;
- (ख) क्या राज्य में स्थित धरोहर स्थलों, प्राचीन महत्वपूर्ण स्थानों और कुछ अज्ञात स्थलों को विकसित करने के लिए राज्य और केंद्र के बीच संयुक्त उद्यम है;
- (ग) क्या मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष में देश भर में, विशेष रूप से कर्नाटक में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए एक निजी कंपनी और सरकारी मॉड्यूल बनाने पर विचार कर रहा है; और
- (घ) उन विभिन्न तरीकों का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से सरकार को पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ख) : पर्यटन स्थलों का विकास मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तथापि पर्यटन मंत्रालय अपनी 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान' (प्रशाद) योजनाओं के अंतर्गत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को 'स्वदेश दर्शन 2.0' के रूप में परिवर्तित किया है और विकास के लिए कर्नाटक राज्य में गंतव्यों के रूप में 'हम्पी' तथा 'मैसूरु' का चयन किया है।

(ग) से (घ) : पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन क्षेत्र और सार्वजनिक निजी भागीदारी में निवेश को सुगम बनाने के लिए सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया है जिसमें विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के सदस्य एवं अन्य हितधारक शामिल हैं। इसके अलावा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का उद्देश्य पर्यटन और आतिथ्य में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना भी है। मंत्रालय अपनी संवर्धनात्मक वेबसाइट (www.incredibleindia.org), सोशल मीडिया गतिविधियों, पर्यटन से संबंधित कार्यक्रमों तथा वेबिनार, ट्रेवल मार्ट में भागीदारी आदि के माध्यम से पर्यटन के संवर्धन हेतु कर्नाटक सहित देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों का समग्र रूप से संवर्धन करता है।
